



FASHIONS LIMITED
A Govt. Recognised Export House

Men's fashion technology

Dated: 9th September, 2019

To,

Manager (Listing),
Corporate Relationship Department
The Bombay Stock Exchange Limited,
P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001.

Ref. : **SAMTEX FASHIONS LIMITED**

Scrip Code: **521206**

Sub. : **PUBLICATION OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2019**

Dear Sir,

Please find enclosed copy of newspaper cutting of published Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019. Got published in:

1. Financial Express dated 08.09.2019
2. Haribhoomi dated 08.09.2019

Thanking You,

Yours Sincerely
For SAMTEX FASHIONS LIMITED

KAMINI GUPTA
COMPANY SECRETARY & GM FINANCE.

Encl. As above

SAMTEX FASHIONS LIMITED

Regd. Office & Works: Plot No. 163, Udyog Vihar, Greater Noida,
Gautam Budha Nagar, U.P. 201308

CIN : L17112UP1993PLC022479, Email: samtex.compliance@gmail.com, Website: samtexfashions.com

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for Quarter ended 30.06.2019
(Rs. In Lakhs, except per share data)

Sr No	Particulars	Consolidated	
		Quarter ended	Year ended
		30.06.19	31.03.2019
		Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	0.30	347.78
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(225.22)	(1325.22)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(225.22)	(1325.22)
4	Equity Share Capital	1490.00	1490.00
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	(21944.08)	(21944.08)
6	Earnings Per Share (before extraordinary items) - Basic & Diluted	(0.30)	(1.78)
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) - Basic & Diluted	(0.30)	(1.78)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites and Company's web site : www.samtexfashions.com

For Samtex Fashions Limited
Sd/-
Atul Mittal
Chairman & Managing Director
DIN 00223366

Place : New Delhi
Date : 07.09.2019

JAGATJIT INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identity Number: L15520PB1944PLC001970

Registered Office : Jagatjit Nagar - 144 802, Distt. Kapurthala (Punjab)

Telephone: (0181) 2783112; Fax: (0181) 2783118, Email: jil@jagatjit.com,

Website: www.jagatjit.com

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 74th Annual General Meeting (AGM) of the members of Jagatjit Industries Limited will be held on Monday, 30th September, 2019 at 9.30 a.m. at the Registered Office of the Company at Jagatjit Nagar, Distt. Kapurthala - 144 802, Punjab. The Company has on 5th September, 2019 completed the dispatch of Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 in the permitted mode.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, 26th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the said AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 members are provided with the facility to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of AGM (remote e-voting). The e-voting period commences on Friday, 27th September, 2019 and will end at 5.00 p.m. on Sunday, 29th September, 2019. The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter.

Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the Members as on 23rd September, 2019 (cut off date). The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or beneficial owners as on cut-off date, Monday, 23rd September, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as to attend the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting shall be entitled to attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM may obtain the Login id and Password by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Notice of 74th AGM is also available on Company's website www.jagatjit.com. In case of any query regarding e-voting, please refer the frequently asked questions ("FAQ") and e-voting manual available on the website www.evotingindia.com. or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Kumar, Manager, Contact No. 1800225533, Address: Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 6th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013. Any query in relation to voting by electronic means may also be addressed directly to Mr. Roopesh Kumar, Company Secretary, Contact Number: +918059400510 and/or E-mail roopesh.kumar@jagatjit.co.in.

For and on behalf of
Jagatjit Industries Limited

Sd/-
Roopesh Kumar
Company Secretary

Date: 6th September, 2019
Place: New Delhi

KAMDHENU LIMITED

(Formerly known as Kamdhenu Ispat Limited)

CIN L27101DL1994PLC134282

Regd. Off.: L-311, Khosra No. 724, Street No. 7, Mahipalpur Extension, New Delhi-37
Plot No. 9, DLF Cyber City, Phase-3, Gurgaon-02, Ph. : +91-124-4604500 (30 Lines) Fax: +91-124-4218524
Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com, Website: www.kamdhenulimited.com

**25TH ANNUAL GENERAL MEETING,
AGM INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

The 25th Annual General Meeting (AGM) of the members of Kamdhenu Limited will be held on Monday, the 30th September, 2019 at Hotel Pride Plaza, Aerocity, New Delhi-110037 to transact Ordinary and Special Business of the Meeting.

The AGM is scheduled to be held on Monday, 30th September, 2019 along with the Annual Report for the Financial Year 2018-19. The members whose email IDs are registered with the Company or with Depository for communication purposes, unless a request for hard copy of Annual Report has been received with Annual Report in Book form have been sent to all other members in the permitted mode and the dispatch for the same has been completed on 4th September, 2019.

A copy of the Notice of AGM and Annual Report is also made available on the Company's website www.kamdhenulimited.com for downloading.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to cast their votes in demat/physical form as on 21st September, 2019 (being the cut-off date for the AGM) by electronic means on all the resolutions proposed to be considered in the AGM (remote e-voting). The Company has engaged M/s. Karvy Fintech Private Limited (Karvy Fintech Private Limited) as the authorized agency to provide the facility of remote e-voting. The facility of remote e-voting shall be provided by Karvy Fintech Private Limited from the portal

www.kamdhenulimited.com. The Business as set out in the Notice of 25th AGM may be transacted through

the AGM on Friday, the 27th day of September, 2019 at 09.00 A.M. IST; or on Sunday, the 29th day of September, 2019 at 05.00 P.M. IST. Thereafter the AGM shall be held by Karvy Fintech Private Limited.

The AGM shall be in proportion to the paid-up value of the shares in the equity of the Company. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, shall be entitled to cast their vote by Remote e-voting or through physical Ballot papers at the AGM.

Members who are not registered with the Company and becomes members of the Company after dispatch of the Notice of AGM, i.e. 21st September, 2019 may obtain the login Id and password by sending a request to the Company as specified in the Notice of AGM. However, if you are already registered with the Company for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting

your vote beyond 5.00 P.M. IST on 29th September, 2019;

Physical ballot papers shall be made available at the meeting and members who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote at the meeting. Members who have not casted their vote at the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall be entitled to attend the AGM and cast their vote at the meeting; and

Members who are not registered in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of Remote e-voting as well as to attend the AGM.

The facility of remote e-voting shall be available on the Company's website www.kamdhenulimited.com and Karvy's website www.evoting.karvy.com.

Members may address their queries/grievance to Mr. Suresh Kumar, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Aerocity, Gurgaon, Haryana - 122002, Hyderabad - 500032, E-mail: suresh.d@karvy.com, or visit the help & FAQ's section available at Karvy website https://evoting.karvy.com or e-mail: helpdesk.evoting@karvy.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 26th September, 2019 to 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. The Company has declared a dividend for payment of dividend for the year ended 31st March, 2019 if declared

For KAMDHENU LIMITED

Sd/-
(Jogeswar Mohanty)
Company Secretary
M. No. A23247

KAMDHENU Nxt



Dreamz Colour

RELIANCE

Infrastructure

एनसीएसटी व आदिवासियों की समीक्षा
नई दिल्ली। राजनजाति आयोग राजस्थान में आदिवासियों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारी ने शनिवार को एनसीएसटी के राठो ने बताया वाली टीम राजस्थान के कालराज मिश्रा और गहलोत से सोमवार करेगी। उन्होंने इसका मूल्यांकन के आदिवासी लोगों विभिन्न कल्याणकारी कि जन धन, उच्च नाम जोड़ने का ला नहीं। राठो ने समीक्षा कर रहे हैं में पानी की आपूर्ति संपर्क और स्कूल है

टिप्स

मकर: परिवार के सदस्यों पर खर्च कर निवेश फायदेमंद साबित होगा। पर्सदीव मेहमत करें। अच्छा महसूस करेंगे।

कुम्भ: कार्यक्षेत्र पर सीनियर्स का विरोध माहौल रहेगा। आज के दिन किसी भी दूसरों को प्रभावित करने में कामियाब

मीन: कार्यक्षेत्र पर चीजों को जल्दी पूरा के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस सकते हैं। करियर में तरक्की के योग है।

टिप्स

1. पीतल का चु.लो. घर में काला पनीला और भूर में कुछ गकारात्मक ऊर्जा बन जाती है इस पीतल का चु.लो रखें।
2. बहुत ज्यादा फर्नीचर आपको कसे हुए हो आपको बांध कर रखता है, जिसकी वजह से घर भी असर पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा

टिप्स: मनीषा कौशिक
Contact: +91 11 264

अगले साल प्रतापगढ़ क माडकल कॉलेज में सबक सहायक, समथन स सभव हा सका हा।

सैमटेक्स फैशंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय एवं बक्स : प्लॉट नं. 163, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. 201308
CIN : L17112UP1993PLC022479, Email: samtex.compliance@gmail.com, Website: samtexfashions.com
30.06.2019 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाखों में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समेकित	
		समाप्त तिमाही 30.06.19	समाप्त वर्ष 31.03.2019
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	0.30	347.78
2	कर के परचात सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(225.22)	(1325.22)
3	कर के परचात अअधि हेतु (असाधारण मदों के बाद) शुद्ध लाभ/(हानि)	(225.22)	(1325.22)
4	इविटी शेयर कैपिटल	1490.00	1490.00
5	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	(21944.08)	(21944.08)
6	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) - बेसिक और डायल्यूटेड	(0.30)	(1.78)
7	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) - बेसिक और डायल्यूटेड	(0.30)	(1.78)

टिप्पणी: उपरोक्त सेमी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये तैमाहिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तैमाहिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स तथा कम्पनी की वेबसाइट www.samtexfashions.com पर उपलब्ध है।

कृते सैमटेक्स फैशंस लिमिटेड
हस्ता/- अतुल मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00223366

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.09.2019

नई दिल्ली। राजनजाति आयोग राजस्थान में आदिवासियों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारी ने शनिवार को एनसीएसटी के राठो ने बताया वाली टीम राजस्थान के कालराज मिश्रा और गहलोत से सोमवार करेगी। उन्होंने इसका मूल्यांकन के आदिवासी लोगों विभिन्न कल्याणकारी कि जन धन, उच्च नाम जोड़ने का ला नहीं। राठो ने समीक्षा कर रहे हैं में पानी की आपूर्ति संपर्क और स्कूल है



नई दिल्ली। राजनजाति आयोग राजस्थान में आदिवासियों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारी ने शनिवार को एनसीएसटी के राठो ने बताया वाली टीम राजस्थान के कालराज मिश्रा और गहलोत से सोमवार करेगी। उन्होंने इसका मूल्यांकन के आदिवासी लोगों विभिन्न कल्याणकारी कि जन धन, उच्च नाम जोड़ने का ला नहीं। राठो ने समीक्षा कर रहे हैं में पानी की आपूर्ति संपर्क और स्कूल है

नई दिल्ली। राजनजाति आयोग राजस्थान में आदिवासियों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारी ने शनिवार को एनसीएसटी के राठो ने बताया वाली टीम राजस्थान के कालराज मिश्रा और गहलोत से सोमवार करेगी। उन्होंने इसका मूल्यांकन के आदिवासी लोगों विभिन्न कल्याणकारी कि जन धन, उच्च नाम जोड़ने का ला नहीं। राठो ने समीक्षा कर रहे हैं में पानी की आपूर्ति संपर्क और स्कूल है

नई दिल्ली। राजनजाति आयोग राजस्थान में आदिवासियों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारी ने शनिवार को एनसीएसटी के राठो ने बताया वाली टीम राजस्थान के कालराज मिश्रा और गहलोत से सोमवार करेगी। उन्होंने इसका मूल्यांकन के आदिवासी लोगों विभिन्न कल्याणकारी कि जन धन, उच्च नाम जोड़ने का ला नहीं। राठो ने समीक्षा कर रहे हैं में पानी की आपूर्ति संपर्क और स्कूल है

नई दिल्ली। राजनजाति आयोग राजस्थान में आदिवासियों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारी ने शनिवार को एनसीएसटी के राठो ने बताया वाली टीम राजस्थान के कालराज मिश्रा और गहलोत से सोमवार करेगी। उन्होंने इसका मूल्यांकन के आदिवासी लोगों विभिन्न कल्याणकारी कि जन धन, उच्च नाम जोड़ने का ला नहीं। राठो ने समीक्षा कर रहे हैं में पानी की आपूर्ति संपर्क और स्कूल है